

स्वच्छता पखवाड़ा, 2018 पर संसद सदस्यों के साथ माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की बैठक का कार्यवृत्त

1. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 30 अप्रैल, 2018 के दौरान मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में 5 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 12.30 बजे जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में एक परस्पर-संवाद सत्र आयोजित किया गया। बैठक में श्री राम कृपाल यादव, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसद सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। निम्नलिखित संसद सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:-

1. श्री ओम बिरला, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री रामचरण बोहरा, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री फगुन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)

2. सर्वप्रथम, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

3. श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार की पहल स्वच्छ भारत मिशन पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे जन समूह के स्वास्थ्य, स्वच्छता और रहन-सहन की दशा में सुधार करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

4. चर्चा के दौरान, माननीय संसद सदस्यों ने खुले में शौच और शौचालयों के उचित कार्यचालन के लिए पानी की कमी के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से बनाए जाने वाले शौचालयों के निर्माण और कार्यचालन का निरीक्षण करने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए। सदस्यों का विचार था कि पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, जनशक्ति संविदा आधार पर भाड़े पर ली जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाया जाना

चाहिए और जन-बल का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी किया जाना चाहिए। एमपीलैड निधि का उपयोग भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया जाए।

5. माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनाओं और उनकी सफलता और स्वच्छ भारत अभियान के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन में ग्रामीण और शहरी लोगों के हौसले और उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता की सराहना की। सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने माननीय मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और मामलों का उत्तर और स्पष्टीकरण दिया गया।

6. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 1.30 बजे समाप्त हुई।